



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2012/पोष 15, 1933

No. 27]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2012/PAUSA 15, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2012

का.आ. 30(अ).—केंद्रीय सरकार ने भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1684(अ), तारीख 21 जुलाई, 2011 के अधीन जारी जा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 22 जुलाई, 2011 को प्रकाशित की गई थी, कोलकाता महानगर में जोका अनुरक्षण डिपो से जोका स्टेशन तक मेट्रो रेल और उससे संबंधित अन्य सकर्मों के निर्माण के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, केन्द्रीय सरकार का, सक्षम प्राधिकारी के रिपोर्ट पर, यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपाक्षित हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार को अर्जित करती है;

अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण क्षेत्रों, जिनका अर्जन किया गया है, का रेखांक सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, श्री अभिजीत डे, मेट्रो रेल के कार्यालय 39/1, रास बिहारी एवेन्यू, (प्रथम तल), कोलकाता-700026 में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है;

अनुसूची

माजेरहाट के रास्ते जोका से विनय बादल दिनेश बाग (बी बी डी बाग) तक मेट्रो रेल का निर्माण और उनसे संबंधित अन्य कार्यों के लिए जोका अनुरक्षण डिपो से जोका स्टेशन तक अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	मौजा और अधिकारिता सूची संख्या	संशोधित निपटान डैग संख्या	वर्ग मीटर में अर्जन किया जाने वाला	भूमि की चारदीवारी	अधिग्रहण की प्रकृति
1	मौजा सखरीपोटा अधिकारिता सूची संख्या 36, थाना-महेशतला, जिला-दक्षिण 24 परगना	347-आंशिक	760.0591	उत्तर - मौजा सखरीपोटा, अधिकारिता सूची संख्या 36. दक्षिण - मौजा रोसापंजो, अधिकारिता सूची संख्या 15, शीट संख्या 1. पूर्व - मौजा बनगाम, अधिकारिता सूची संख्या 16. पश्चिम - मौजा सखरीपोटा, अधिकारिता सूची संख्या 6.	स्थायी
	वही	348-आंशिक	510.9388	वही	वही
	वही	349-आंशिक	604.3703	वही	वही
	वही	350-आंशिक	676.6998	वही	वही
	वही	351-आंशिक	200.0431	वही	वही
	वही	352-आंशिक	550.3586	वही	वही
	वही	353-आंशिक	613.6703	वही	वही
	वही	354-आंशिक	1111.3264	वही	वही
	वही	355-पूर्ण	1650.2567	वही	वही
	वही	356-आंशिक	198.9017	वही	वही
	वही	357-आंशिक	215.9133	वही	वही
	वही	358-आंशिक	37.9	वही	वही
	वही	359-आंशिक	106.0757	वही	वही
	वही	360-पूर्ण	937.3706	वही	वही
	वही	407-आंशिक	305.2656	वही	वही
	वही	408-आंशिक	569.6221	वही	वही
	वही	410-पूर्ण	587.7631	वही	वही
	वही	421-पूर्ण	811.7693	वही	वही
2	मौजा रोसापंजो, अधिकारिता सूची संख्या 15, शीट संख्या 1, थाना-विष्णुपुर जिला-दक्षिण 24 परगना	71-आंशिक	1308.6204	उत्तर - मौजा सखरीपोटा अधिकारिता सूची संख्या 36. दक्षिण - मौजा रोसापंजो, अधिकारिता सूची संख्या 15, शीट संख्या 1. पूर्व - मौजा बनगाम, अधिकारिता सूची संख्या 16. पश्चिम - मौजा रोसापंजो, अधिकारिता सूची संख्या 15, शीट संख्या 1.	वही
	वही	72-आंशिक	1294.1762	वही	वही
	वही	75-आंशिक	597.4654	वही	वही
	वही	76-आंशिक	843.109	वही	वही
	वही	365-आंशिक	743.57	वही	वही
	वही	366-आंशिक	629.4334	वही	वही
	वही	367-आंशिक	506.9194	वही	वही
	वही	368-आंशिक	600.2679	वही	वही
	वही	369-आंशिक	685.1306	वही	वही
	वही	370-आंशिक	1063.1872	वही	वही
	वही	371-आंशिक	546.6141	वही	वही
	वही	375-आंशिक	753.9721	वही	वही
	वही	376-पूर्ण	4400.6931	वही	वही
	वही	377-आंशिक	652.766	वही	वही
	वही	381-आंशिक	364.875	वही	वही
	वही	382-आंशिक	2272.1825	वही	वही
	वही	383-पूर्ण	2554.2938	वही	वही
	वही	384-पूर्ण	2248.2089	वही	वही
	वही	385-पूर्ण	10775.947	वही	वही
	वही	386-पूर्ण	554.485	वही	वही
	वही	387-पूर्ण	4188.1289	वही	वही
	वही	389-पूर्ण	2932.9451	वही	वही
	वही	390-पूर्ण	2760.4818	वही	वही
	वही	391-पूर्ण	3334.0864	वही	वही
	वही	392-पूर्ण	3616.8911	वही	वही
	वही	393-पूर्ण	2901.0.81	वही	वही
	वही	394-पूर्ण	1418.8078	वही	वही
	वही	395-पूर्ण	756.36	वही	वही
	वही	396-पूर्ण	630.1349	वही	वही
	वही	397-आंशिक	999.9969	वही	वही

क्रम संख्या	मौजा और अधिकारिता सूची संख्या	संशोधित निपटान डैग संख्या	वर्ग मीटर में अर्जन किया जाने वाला	भूमि की चारदीवारी	अधिग्रहण की प्रकृति
	वही	398 पूर्ण	708 0935	वही	वही
	वही	399 आंशिक	366 6027	वही	वही
	वही	405 आंशिक	1245 8456	वही	वही
	वही	406 आंशिक	1206 3621	वही	वही
	वही	107 आंशिक	1104 9348	वही	वही
	वही	410 आंशिक	1335 5088	वही	वही
	वही	411 आंशिक	2467 5723	वही	वही
	वही	412 पूर्ण	3781 8511	वही	वही
	वही	413 पूर्ण	1706 598	वही	वही
	वही	414 पूर्ण	443 0717	वही	वही
	वही	415 पूर्ण	810 0939	वही	वही
	वही	417 पूर्ण	2636 22	वही	वही
	वही	418 आंशिक	1053 7812	वही	वही
	वही	419 आंशिक	628 811	वही	वही
	वही	420 आंशिक	1290 2457	वही	वही
3	मौजा बरगाम, अधिकारिता सूची संख्या 16, थाना एवं ब्लॉक-विष्णुपुर, जिला-दक्षिण 24 परगना	21-आंशिक	2755.2027	उत्तर मौजा कोलागछिया अधिकारिता सूची संख्या 40 और बनगाम अधिकारिता सूची संख्या 16. दक्षिण- मौजा बनगाम, अधिकारिता सूची संख्या 16 पूर्व-मौजा हापुकुरिया, अधिकारिता सूची संख्या 20 शीट संख्या 2 पश्चिम- मौजा रोसापजो, अधिकारिता सूची संख्या 15 शीट संख्या 1	वही
	वही	23 पूर्ण	74 5951	वही	वही
	वही	24 आंशिक	421 5126	वही	वही
	वही	25 आंशिक	70 924	वही	वही
	वही	26 पूर्ण	771 9194	वही	वही
	वही	27 पूर्ण	1213 222	वही	वही
	वही	28 पूर्ण	1096 515	वही	वही
	वही	29 पूर्ण	298 2885	वही	वही
	वही	30 आंशिक	213 6095	वही	वही
	वही	31 आंशिक	2424 424	वही	वही
	वही	33 आंशिक	155 6538	वही	वही
	वही	34 आंशिक	963 1362	वही	वही
	वही	36 आंशिक	1628 651	वही	वही
	वही	37 पूर्ण	3216 788	वही	वही
	वही	38 पूर्ण	3259 13	वही	वही
	वही	39 पूर्ण	1870 924	वही	वही
	वही	40 पूर्ण	1228 3	वही	वही
	वही	41 पूर्ण	3034 716	वही	वही
	वही	42 पूर्ण	3238 09	वही	वही
	वही	43 पूर्ण	3276 61	वही	वही
	वही	44 पूर्ण	411 9402	वही	वही
	वही	45 पूर्ण	1148 0334	वही	वही
	वही	46 पूर्ण	507 0651	वही	वही
	वही	47 पूर्ण	265 5074	वही	वही
	वही	48 पूर्ण	2219 4327	वही	वही
	वही	49 पूर्ण	1088 1345	वही	वही
	वही	50 पूर्ण	2125 822	वही	वही
	वही	51 पूर्ण	1897 671	वही	वही
	वही	52 पूर्ण	682 813	वही	वही
	वही	53 पूर्ण	1005 06	वही	वही
	वही	54 पूर्ण	929 562	वही	वही
	वही	55 पूर्ण	2616 8094	वही	वही
	वही	56 पूर्ण	801 7641	वही	वही
	वही	57 पूर्ण	653 061	वही	वही
	वही	58 पूर्ण	542 226	वही	वही
	वही	59 पूर्ण	1437 8646	वही	वही
	वही	60 पूर्ण	359 6	वही	वही
	वही	61 पूर्ण	839 5712	वही	वही
	वही	62 आंशिक	1550 6081	वही	वही
	वही	63 आंशिक	553 756	वही	वही
	वही	64 आंशिक	404 6617	वही	वही
	वही	80 आंशिक	262 273	वही	वही
	वही	81 आंशिक	269 8059	वही	वही

क्रम संख्या	मौजा और अधिकारिता सूची संख्या	संशोधित निपटान डैग संख्या	वर्ग मीटर में अर्जन किया जाने वाला	भूमि का चारदीवारी	अधिग्रहण की प्रकृति
	वही	82-आंशिक	9405 662	वही	वही
	वही	83-पूर्ण	5323 851	वही	वही
	वही	84-पूर्ण	773 664	वही	वही
	वही	85-पूर्ण	801 906	वही	वही
	वही	86-आंशिक	414 1598	वही	वही
	वही	100-आंशिक	569 252	वही	वही
	वही	190-आंशिक	206 593	वही	वही
	वही	191-आंशिक	1713 9655	वही	वही
	वही	192-आंशिक	1090 0286	वही	वही
	वही	194-आंशिक	1440 98	वही	वही
	वही	195-पूर्ण	1506 6183	वही	वही
	वही	196-आंशिक	3378 4927	वही	वही
	वही	197-पूर्ण	1316 813	वही	वही
	वही	198-पूर्ण	115 102	वही	वही
	वही	199-पूर्ण	194 145	वही	वही
	वही	200-पूर्ण	636.0119	वही	वही
	वही	201-आंशिक	2969 418	वही	वही
	वही	202-आंशिक	241 2044	वही	वही
	वही	203-पूर्ण	2939 465	वही	वही
	वही	204-पूर्ण	661 773	वही	वही
	वही	205-आंशिक	2716 762	वही	वही
	वही	206-आंशिक	3669 0755	वही	वही
	वही	207-पूर्ण	1943 861	वही	वही
	वही	208-पूर्ण	1184 661	वही	वही
	वही	209-पूर्ण	367 8909	वही	वही
	वही	210-आंशिक	145 245	वही	वही
	वही	211-आंशिक	44 515078	वही	वही
	वही	212-आंशिक	797 9935	वही	वही
	वही	213-आंशिक	84 98333	वही	वही
	वही	214-आंशिक	123 3135	वही	वही
	वही	216-आंशिक	4319.3115	वही	वही
	वही	217-आंशिक	3791 871	वही	वही
	वही	296-आंशिक	113 3111	वही	वही
	वही	469-पूर्ण	993 0478	वही	वही
	वही	470-पूर्ण	924 3772	वही	वही
	वही	471-आंशिक	109 937	वही	वही
	वही	481-आंशिक	1046 2485	वही	वही
	वही	483-आंशिक	345 7314	वही	वही
	वही	484-पूर्ण	1112 1267	वही	वही
	वही	485-पूर्ण	1944 0037	वही	वही
	वही	486-पूर्ण	1322 599	वही	वही
	वही	487-आंशिक	7239 2245	वही	वही
	वही	488-आंशिक	2981 4027	वही	वही
	वही	496-पूर्ण	1235 923	वही	वही
	वही	503-आंशिक	476 7909	वही	वही
4	मौजा कोलागछिया, अधिकारिता सूची संख्या 40, थाना-महेशतला, जिला-दक्षिण 24 परगना	364-आंशिक	695.3109	उत्तर- मौजा कोलागछिया, अधिकारिता सूची संख्या 40. दक्षिण- मौजा बनग्राम, अधिकारिता सूची संख्या 16. पूर्व- मौजा बनग्राम, अधिकारिता सूची संख्या 16. पश्चिम- मौजा बनग्राम, अधिकारिता सूची संख्या 16.	वही
	वही	365-आंशिक	632.9302	वही	वही
	वही	366-आंशिक	695.0385	वही	वही
	वही	367-आंशिक	300.001	वही	वही
	वही	368-पूर्ण	63.31	वही	वही
	वही	375-पूर्ण	205.3029	वही	वही

क्रम संख्या	मौजा और अधिकारिता सूची संख्या	संशोधित निपटान डैग संख्या	वर्ग मीटर में अर्जन किया जाने वाला	भूमि की चारदीवारी	अधिग्रहण की प्रकृति
5	मौजा-हासपुकुरिया अधिकारिता सूची संख्या 20, शीट संख्या 2, थाना-बेहाला, जिला-दक्षिण 24 परगना	254-आंशिक	399.1624	उत्तर- मौजा हासपुकुरिया, अधिकारिता सूची संख्या 20, शीट सं. - 2. दक्षिण- मौजा हासपुकुरिया अधिकारिता सूची संख्या 20, शीट संख्या - 2 पूर्व- मौजा हासपुकुरिया, अधिकारिता सूची संख्या 20, शीट संख्या-2. पश्चिम- मौजा बनग्राम. अधिकारिता सूची संख्या 16.	वही
	वही	255 आंशिक	154 953	वही	वही
	वही	256 आंशिक	4 3353	वही	वही
	वही	398 आंशिक	380 189	वही	वही
			227353.7880		

[फा. सं. 2010/प्रोजे./सी/9/2]

राजीव चौधरी, कार्यपालक निदेशक/निर्माण योजना, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2012

S.O. 30(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways number S.O. 1684(E), dated the 21st July, 2011, issued under sub-section (1) of section 7 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 22th July, 2011, the Central Government gave notice of its intention to acquire lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, for the purpose of construction of Metro Railway from Joka Maintenance Depot to Joka Station and other works connected therewith in the metropolitan City of Kolkata.

And whereas the Central Government, on the report of the Competent Authority is satisfied that the lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, are required for the above said purpose;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, 1978, the Central Government do hereby acquires the lands, buildings, streets, roads, passages or the right of users or easement therein, as specified in the Schedule below.

The plan of the areas, specified in the Schedule which are acquired, is available for inspection in the office of the Competent Authority namely, Shri Abhijit De, Competent Authority, Metro Railway, at 39/1, Rash Behari Avenue, (1st Floor), Kolkata-700026;

36 GI/12-2

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired from Joka maintenance Depot to Joka Station in connection with construction of Metro

Serial Number	Mouza and Jurisdiction List Number	Revisional Settlement Dag Number	Area to be acquired in Square meter	Boundary of Land	Nature of Acquisition
1	Mouza Sakharipota, Jurisdiction List Number. 36, Thana-Mahestala, District-South 24 Parganas	347-Part	760.0591	North - Mouza Sakharipota, Jurisdiction List Nuber 36. South - Mouza Rosapunjo, Jurisdiction List Number 15, Sheet Number 1. East - Mouza Bongram, Jurisdiction List Number 16. West - Mouza Sakharipota, Jurisdiction List Number 6.	Permanent
	do	348-Part	510.9388	do	do
	do	349-Part	604.3703	do	do
	do	350-Part	676.6998	do	do
	do	351-Part	200.0431	do	do
	do	352-Part	550.3586	do	do
	do	353-Part	613.6703	do	do
	do	354-Part	1111.3264	do	do
	do	355-Full	1650.2567	do	do
	do	356-Part	198.9017	do	do
	do	357-Part	215.9133	do	do
	do	358-Part	37.9	do	do
	do	359-Part	106.0757	do	do
	do	360-Full	937.3706	do	do
	do	407-Part	305.2656	do	do
	do	408-Part	569.6221	do	do
	do	410-Full	587.7631	do	do
	do	421-Full	811.7695	do	do
2	Mouza Rosapunjo, Jurisdiction List Number 15, Sheet Number 1, Thana-Bishnupur, District-South 24 Parganas	71-Part	1308.6204	North - Mouza Sakharipota, Jurisdiction List Number 36. South - Mouza Rosapunjo, Jurisdiction List Number 15, Sheet Number 1. East - Mouza Bongram, Jurisdiction List Number 16. West - Mouza Rosapunjo, Jurisdiction List Number 15, Sheet Number 1.	
	do	72-Part	1294.1762	do	do
	do	75-Part	597.4654	do	do
	do	76-Part	843.109	do	do
	do	365-Part	743.57	do	do
	do	366-Part	629.4334	do	do
	do	367-Part	506.9194	do	do
	do	368-Part	600.2679	do	do
	do	369-Part	685.1306	do	do
	do	370-Part	1063.1872	do	do
	do	371-Part	546.6141	do	do
	do	375-Part	753.9721	do	do
	do	376-Full	4400.6931	do	do
	do	377-Part	652.766	do	do
	do	381-Part	361.875	do	do
	do	382-Part	2272.1825	do	do
	do	383-Full	2551.2938	do	do
	do	384-Full	2248.2689	do	do
	do	385-Full	10775.947	do	do
	do	386-Full	551.385	do	do
	do	387-Full	4188.1289	do	do
	do	389-Full	2932.9151	do	do
	do	390-Full	2760.4818	do	do
	do	391-Full	3334.0861	do	do
	do	392-Full	2616.8911	do	do
	do	393-Full	2901.0584	do	do
	do	394-Full	1418.8078	do	do
	do	395-Full	756.36	do	do
	do	396-Full	630.1349	do	do

Serial Number	Mouza and Jurisdiction List Number	Revisional Settlement Dag Number	Area to be acquired in Square meter	Boundary of Land	Nature of Acquisition
	do	397-Part	999 9969	do	do
	do	398-Full	708 0935	do	do
	do	399-Part	366 6027	do	do
	do	405 Part	1245 8456	do	do
	do	406 Part	1206 3621	do	do
	do	407 Part	1104 9318	do	do
	do	410-Part	1335 5088	do	do
	do	411-Part	2467 5723	do	do
	do	412-Full	3781 8514	do	do
	do	413 Full	1706 7598	do	do
	do	414-Full	443 0717	do	do
	do	415 Full	810 0939	do	do
	do	417-Full	2636 22	do	do
	do	418 Part	1053 7812	do	do
	do	419 Part	628 811	do	do
	do	420 Part	1290 2457	do	do
3	Mauza Bongram, Jurisdiction List Number 16, Thana & Block-Bishnupur, District-South 24 Parganas	21-Part	2755.2027	North Mauza Kolighachiya, Jurisdiction List Number 40 and Bongram Jurisdiction List Number 16. South- Mauza Bongram, Jurisdiction List Number 16. East-Mauza Hapukuriya, Jurisdiction List Number 20, Sheet Number 2. West-Mauza Rosapunjo Jurisdiction List Number 15, Sheet Number 1	do
	do	23-Full	71 3851	do	do
	do	24-Part	121 5126	do	do
	do	25-Part	70 924	do	do
	do	26-Full	771.9194	do	do
	do	27-Full	1213 222	do	do
	do	28 Full	1096 515	do	do
	do	29 Full	298 2885	do	do
	do	30-Part	213 6095	do	do
	do	31-Part	2424 124	do	do
	do	33-Part	155 6538	do	do
	do	34 Part	963 4362	do	do
	do	36 Part	1628 651	do	do
	do	37-Full	3216 788	do	do
	do	38 Full	3259 12	do	do
	do	39-Full	1870 924	do	do
	do	40-Full	1228.3	do	do
	do	41-Full	3034 316	do	do
	do	42-Full	3238 09	do	do
	do	43-Full	3276 61	do	do
	do	44-Full	1114 9102	do	do
	do	45-Full	1148.0334	do	do
	do	46-Full	507 0654	do	do
	do	47-Full	265 5074	do	do
	do	48-Full	2219 4327	do	do
	do	49-Full	1088 1345	do	do
	do	50-Full	2125 822	do	do
	do	51 Full	1897 671	do	do
	do	52 Full	682 813	do	do
	do	53 Full	1005 06	do	do
	do	54 Full	929 562	do	do
	do	55-Full	2616 8094	do	do
	do	56-Full	804 7644	do	do
	do	57-Full	653 061	do	do
	do	58 Full	642 226	do	do
	do	59 Full	1437 8646	do	do
	do	60-Full	559 6	do	do
	do	61 Full	839 5712	do	do
	do	62 Part	1950 8084	do	do
	do	63 Part	553 756	do	do

3661/12-3

Serial Number	Mouza and Jurisdiction List Number	Revisional Settlement Dag Number	Area to be acquired in Square meter	Boundary of Land	Nature of Acquisition
	do	64-Part	404 6617	do	do
	do	80-Part	262 273	do	do
	do	81-Part	269 8059	do	do
	do	82-Part	9405 662	do	do
	do	83-Full	5323 851	do	do
	do	84-Full	773 664	do	do
	do	85-Full	801 906	do	do
	do	86-Part	414 1598	do	do
	do	100-Part	569 252	do	do
	do	190-Part	206 593	do	do
	do	191-Part	1713 9655	do	do
	do	192-Part	1090 0286	do	do
	do	194-Part	1440 98	do	do
	do	195-Full	1506 6183	do	do
	do	196-Part	3378 4927	do	do
	do	197-Full	1316 813	do	do
	do	198-Full	115 102	do	do
	do	199-Full	194 145	do	do
	do	200-Full	636 0119	do	do
	do	201-Part	2969 418	do	do
	do	202-Part	241 2044	do	do
	do	203-Full	2939 465	do	do
	do	204-Full	661 773	do	do
	do	205-Part	2716 762	do	do
	do	206-Part	8669 0755	do	do
	do	207-Full	1943 861	do	do
	do	208-Full	1184 661	do	do
	do	209-Full	367 8909	do	do
	do	210-Part	145 245	do	do
	do	211-Part	44 515078	do	do
	do	212-Part	797 9935	do	do
	do	213-Part	84 98333	do	do
	do	214-Part	123 3135	do	do
	do	216-Part	4319 3115	do	do
	do	217-Part	3791 871	do	do
	do	296-Part	113 3111	do	do
	do	469-Full	993 0478	do	do
	do	470-Full	924 372	do	do
	do	471-Part	109 937	do	do
	do	481-Part	4046 2485	do	do
	do	483-Part	345 7314	do	do
	do	484-Full	1112.1267	do	do
	do	485-Full	1944 0037	do	do
	do	486-Full	1322 599	do	do
	do	487-Part	7239 245	do	do
	do	488-Part	2981 4027	do	do
	do	496-Full	1235 923	do	do
	do	503-Part	476 7909	do	do
4	Mouza Kolagachiya, Jurisdiction List Number 40, Thana-Maheshtala, District-South 24 Parganas	364-Part	695.3109	North- Mouza Kolagachiya, Jurisdiction List Number 40. South- Mouza Bongram, Jurisdiction List Number 16. East- Mouza Bongram, Jurisdiction List Number 16. West- Mouza Bongram, Jurisdiction List Number 16.	do
	do	365-Part	632 9302	do	do
	do	366-Part	695 0385	do	do
	do	367-Part	300 001	do	do
	do	368-Full	63.31	do	do
	do	375-Full	205.3029	do	do

Serial Number	Mouza and Jurisdiction List Number	Revisional Settlement Dag Number	Area to be acquired in Square meter	Boundary of Land	Nature of Acquisition
5	Mouza Haspukuria, Jurisdiction List Number 20, Sheet Number 2, Thana-Behala, District-South 24 Parganas	254-Part	399.1624	North- Mouza Haspukuria, Jurisdiction List Number 20, Sheet Number 2. South- Mouza Haspukuria, Jurisdiction List Number 20, Sheet Number 2. East- Mouza Haspukuria, Jurisdiction List Number 20, Sheet Number 2. West- Mouza Bongram, Jurisdiction List Number 16.	
	do	255-Part	154.953	do	do
	do	256-Part	4.3353	do	do
	do	398-Part	380.189	do	do
			227353.7880		

[F.No. 2010/Proj./C/9/2]

RAJIV CHAUDHRY, Executive Director/Works Planning, Railway Board